हुन्न कुलायाय॥ हुलि॥ धुया लि ... नरः नेत्रमरीपक॥ सन्कि

ॐ श्रीं ४ हुं नमा पिठिकाय॥ सर्वविघ्नापशमनाय॥ सर्वोपद्रवना

शनाय॥ सर्वग्रह गणापासनाय॥ सकलमाल छेदनाय॥ ॐ हुं वलिग्र

ह्न २ खव २ खवाहि २॥ ॐ हुं सुविनमस्माला हि॥ सवाकलनं सहि म

पूर्ण हिर्णं॥ पंचापचानवलिवप्रतिग्रह्णना॥ ॐ हुं उच्छिष्ट वल्याव

नाय॥ हाय नम सर्वविघ्नापशान्ति॥ थं ल्भान्ति कर॥ प्रिहि॥ कहहरा

आशा आर्काइभ्स
ASHA ARCHIVES
2638

॥ अथ संग्रह नक्षत्र ॥ ॐ वध वाढय स्वाहा

स्वाहा ॥ थन पञ्चोपचार पूजा ॥ थन ॥ थन धूप दीप पूजा याय ॥ कृत्य

कायके ॥ ॐ ककक डन स्फुर स्वाहा ॥ ॐ वव धन स्फुर स्वाहा ॥ ॐ खखख डन स्

फुर स्वाहा ॥ ॐ घघ घा नय स्फुर स्वाहा ॥ पश्चात् तपूजा याय ॥ थन डिग व नि वि

ध ॥ स्नान तनके ॥ किन तके ॥ गन्ध पूजा ॥ दक्षिणा पूजा ॥ क्षमापन ॥ न हाय

क व ति स्थाय ॥ ॥ इति उच्छिष्ट बलि विधि समापत ॥

ॐ नमो नव दुर्गाय ॥ नमः वज्रायतु ॥ महा देवि ॥ मा ह ल लि वि य व हि

नि ॥ क्षमा त्रिच ॥ विष्णु न विर ॥ वहि च न प्याहि ॥ डाय निग था देवि

वाहू ग्राम ति रि रव नि ॥ नि ह्ल नन म सा ल क्रि ॥ स व ग म स मं ति म ॥

श्रीगम सृङ्न मा हा त्रा गि नि ॥ देह वि ॐ नि ना था ॥ स क्ष थि ... हः ॥

देवि नम ... गा गि नि ग ध ॥ ... ॥ २ ॐ नमः ॥ बलि कार्य ॥ ॥

वज्रापनि ॥ वज्र सा प्रि त्रि ॥ वज्र ... वि रू ड नि ॥ ... गा वि ति श्रा

पि ॥ व तु ग ग प त्राय नी ॥ ह स य क्ष वि मा न स ॥ मा म त्र पि पि त मह ॥

प स्त. क ज प मा न ब ॥ व त्र ग स्य पा नि नां ॥ वि न वृ शं स न देवि ॥ वि नां

सिपिगस्मनाः पि गायस्रायस्रतक्षूः पिगगधानस्पनि तुःवनस्रावस्र
पयागलत्रवसिनिः पृत्वपि० स्मिगानस्रः त्रक्रमस्क्रीश्राम्कुग ॥ १ ॥
गाह्क्षविमहमायाः मास्रा मायानृनंस्क्रनिः म स्राव मरु माऋ्षा ः मलाक्र
वनाहनिःहिमम्क्री निरंह्हः कपानक्रपह्लाषवः गिस्रावनिग्रिस्रव
वःत्रा कस्र्त्रकमनुस्रः नासाकानस्र्र्बागिः हृरीनमवचप्रक्ष ः क्षत
स्मिस्मि गिविनामार्थसर्हे श्यापिस्रवक्षवि॥ क्षवावृथ्यवमाङ्कवि ः

क्षगीं गिक्षगयन्हृपविधाना ः स्रुक्रारुनरं स्रविमः वनस्रांमहास्रधं
गावचरुनि वासिनिः उत्रेनायांस्मि गात्र्यमन्ह क्षवीनमाम्कु गः २॥
वत्रस्रागमहारनी ः [illegible] कामा्विनक्रा नावनिन कृवस्रुपविधानः
मिष्ठ्नारनविग्रहस्राः वन्कुस्र गांविंखिः सिच्छियागधनाक्षुस्र ः कामा
पनमङ्गवः मयृनापविस्र स्मिगः नक्रुवर्न्हे स्रक्षस्रागिः नक्रुमास्र
षिगाः क्री यय्या नमस्राक्रत्रः वटव स्रनिवासिनिः जुह्ययीवस्मि गा

नियः कागाग्निदहन मामस्तु गः ३ ॥ वैष्णुवीविष्णुमायाचः ५ त्यइक्रि
यवनः हत्रि तस्या मनक्षीगी मे ः गवन्ड पविस स्थि तः क्षेसवक्र
गदासस्का ः सन्धु वाहु विस खिता ः न काञ्चा नमासाकि ग ः नानान क्रवि
स्त्रभिताः हविन पृ थ्वगान्धक्ष ः सगाह विन पावीलि ः स्वगुमखसवपन्
स्थि तिन्पन संस्थि ता ः भूहाम स्य रुत्र ः क इ वव सवासिनि ः नित्सन्धि
पि ० नमास्व ः नानायनिनमम्स्तु गः ४ ॥ कवा हि घोन खपिव ः न कर्क

लि महाडपि ः उ क्ष कवानगहिमः वाकान मावना ः कपानमन
स नना विचित्रपृष्ठ ञा हिता ः माहानहि बमास्थ ः ज्ञनिताग्निसमव
ता ः मिनाकृनक लिकदन्ता ः सनाग नन स्थिता ः निनत्र ज्ञानि गदह
इ कृदयाविनाशन ः नका वक्र महाकै गः सत्र बृहमसाल्लिता ः यास
पि ० स्थिता नित्ये ः कानद पिनमास्तु गः ५ ॥ सकै क्षनिसहमसाकी
रु कृ माराविग्रहाः सून क्षनिमहाड पिः द्वासघोर्त कानसूविनि ः

व न्द्र रुगाविश्यताभि : ध्रु तघं नविषाविर्हि : महावज्रधनाइविः क्लि
नानना वनिगज : नानापद्मनलाइवि : सर्वोर्हं कानररविना : नानान
विहिक्तांगि : नानावज्रविनाजिना : वीनसोमहारुरू : ज्ञ्वक्षविस्वा
शिनी : नागपी ० स्थिनानिघ्न : छ्वक छ्वविनमान्कुग : ण : वामस्तव
ल्लिकावल्लि : वज्र वल्ली कुधाविनि : वज्रअट्टरोसवज्री शी : प्रकृवज्रा
व डनाशिनि : डक्ष्त्र कल्लातनगकागी : कंपिनकञ्ज किसाडवि : कपागी

रिपहनी आ...ति कृम तनरूपनी : महापद्मसमारूपा : स्तुतंवज्र
रिछ्म रिना : ऋनिवज्रसमुनाव : समुद्रसग धाविनी : कालीकपालरु
स्ना छ्या : वनवरूनररूविना : ननवज्र वनाडवि : वापिवज्र वनाक
नि : मन्नुमाहा धनाडवि : हावारुवनरूविना : हावारुवनमुद्रि
नृसिंहन सराधिया : महमसूर्यसकास : नामकूपपतिस्थि गौं :
ज्ञाहमातकताडवि : नदिनदिसमपया : रनधवतातत्रताकि

न्या॥ पतिवानऌवासासा॥ शावीकाञ्चमहाराज्ञा॥ उड्डवनसमासिनि॥
वायुपिथस्थितानिर्थ॥ वामहस्तापेनमानस॥ ॥ महाचक्रीमहाइवि
श्रीसाग्रग्रुध्वस्यंइति॥ वृन्दुख्यापातुकारन्यः॥ सिंहासनसंस्थिता॥
चतुरुङ्गाविलाचालि॥ श्रीरत्नकुगजाधना॥ नीलवाहानकयुगं॥ नन
रुन्दुलयाहिनी॥ न[illegible]नेत्रवासिनसर्वाङ्गी॥ कृत्तमनिविरुरिवता॥ वि
चित्रपृथ्वीनलेच॥ वस्त्रगंधारतपिनि॥ कृष्णाकृष्याविनीइवि॥

सर्वस्थासर्वसावत॥ सिद्धिगन्धर्वनमीता॥ विद्याधरनराचिता॥ वनि
तवमहाराज्ञ॥ वनवसनिवासिनि॥ श्मशानपि॰संस्थान॥ महाचक्रि
नमानस॥ ॥ जम्बूरत्नस्थिताइवि॥ जम्बूविरुनीवासिनि॥ जम्बु
द्वीपवसंज्ञक॥ जम्बूमारकानमाक्रुतं॥ ज्ञाननिराद्वेरगानां॥ सर्वस
त्वापकारिनि॥ सर्वग्रहनाइवि॥ संसारगन्नु[illegible]इलि॥ त्वमवरदेवता
मुत्तं॥ त्वमनञ्चनिरुपिनि॥ त्वमवस्त्रकुर्संहानि॥ त्वमवंस्थिनि

रूपिनि । त्वं भव सर्व्वरूपिनी । त्वं भव विश्वरूपिनि ॥ ० ॥ श्रीमहाभैरवं ।
ॐ नमो महात्मना । रुद्र वशीकरं प्रोक्तं । घातकारि त्रिशूलिनं । निरंज
न निरहंकार । महाकाय महात्मन । नानारूप समाकुल । नानावस्त्र
धरं रौद्रं । त्रिनेत्र महाग्रहं । अग्निसूर्य समप्रभं । रुद्रनाम
हरं शूलं । शशिवाग्निसूर्य्यं सामसूमदं । त्रिशूल खट्वांग डमरु
गणविधुत । पानि ज्ञानिकाय मुण्डक वा । खड्ग चर्म्म धनुर्धर । पाशाङ्कुशधनाग

वी । वज्र रत्न गदा धरा । कपाल कर्त्तिकाचक्र । गदा धर्म्मा वस्त्र यम । ड
मरु कपाल वरप्रद । व्याघ्र चर्म्म कटिबद्ध । सर्व्व कामन सर्व्वाङ्गा । नागाभर
णधारिणा । लोक मालाधराम्बर । कपाल मालि मार्द्दम । शत्रुमर्दि
महाभय । कपाल चन्द्र शेखर । महाप्रतापनानि धं । नरमांसास्र
प्रिया । सर्व्वाङ्गिनि खट्वांग । हस्तानि ... शुर्द्धं संनिरा । चन्द्रः पाद स्थिता निस्थ ।
ऋक्ष तरलि वासिनि । ऋक्ष ऋक्ष मृत्तिका स्थिता दिवा । ऋक्ष ऋक्ष ध्यानिनी स्थिता ।

रुद्रपि॰ स्निग्धनिर्घः । रुडकान्तकरूपं । बीजरश्मिं नमाम्यहं । जम्भीना
गर्भ रुद्धवं । वन्दोथ काधर्मलव । उत्तमं नकवाहरीपर्णं । तं हानरीपं
नन्द्यः । सिंहानरूजुष्टवरं । नवाङ्गं नमाम्यहं । स्वस्वस्थानसाधिकाहं
स्वस्वरूपविश्वविर्य्यका । स्वस्वकायस्थं वर्णकं । दिव्यानलरसिमा । ऊर्ध्व
कृष्ण त्रपालवं । स ग्रांश्ववस्तु प्रह्वलं । पंच महाकृपालवं । कनकवार्नमा
म्यहं । नाथ नाथमाहानाथं॰ आदिनाथं महात्मनं । श्रीनाथ सिद्धिनाथ

ञ्च । मीननाथ नमाम्यहं । गोरक्षनाथ चर्पट चौरङ्गिनाथं महात्मनः ।
धूनथं त्ररूपवं । वटुकनाथ नमाम्यहं । त्रिनाथ ज्ञानवनाथवं । श्रीजल
नाथ नमाम्यहं । सकाविसतिप्रियवर्ग । श्रीनासिकं नमाम्यहं ।
सर्वषां नाथसिद्धानां । संतानाव कृतार्थं । योगसं नथवादं । गतं
र्वंव नमाम्यहं ।। ज्रकाकानतिकानय । यपय लिलनाथ कथा । पथि
त्वा सर्वसत्तानां । पापानि लियसन्तुमे । । नाडाय रहाक सिंलानः

नाठाय द्विपूद्धनगा। नाठायकनहनाग। नाठायइ ःखइहेन। नाठाय
रुवनामिडं। नाठायडिपृमणिमं। नाठायइग्निर्यामाडि। नाठायसर्वद्धिनः
नाठाय स्वविर्षदानं। नाठायडरिसानगः। नाठायहीं कधसानिः
नाठायस्त्र वेपीछनं। ज्ञाय ज्ञानामयमंलवयो। धनधान्यविवर्धनः ध
र्मथकामममाह्नार्थी। प्रज्ञाशीलग्यमूर्मं। सिद्धिसिद्धिवलक्री रः वि
ज्ञाना ह्ला स्तगा स्वीनं। प्राप्नोतितिवनसथय। यथस्त्रीछुरुनव॥
ॐ इति ग्रहदेवविमानसमाप्त॥ ॥ ७२॥

२ ॐ नमाः श्रीवज्रसत्त्वाय॥ वंद्या वनविधानशासनय। थननातक
मानकमानमानकधूनकाव। थापना। धूडाव। पूजारु ड नप कधू
डाव। गन्नमंडन। डिगनि। नवाँ। धूडाव। गानसमाहकान॥
मनधूडा। कुरुद्धस। ज्ञाकपाडास। आहानिरुय। धूडाव॥
वनिकमडय। ॐ नमोध्याह वज्रिकाय। मन्दारसनपयाय।
४ क्रिं रूलम्र। ४। ॐ विन्दुह्ल ममाकाग्रासि। धूर्णाप्रमुजा नूनं निर्क४

उ वज्र गन्ध विघ्नान प्रस्थान आस्कृत ॥ ७ ॥ पान ॐ ह्रीँ श्रीँ हूँ हूँ मत्त
मत्त विघ्नासायहुँ २ फट २ स्वाहा ॥ धूप ॐ गम गिनि सिद्धि ध्वाक थव
गन २ आघहुँ २ फट स्वाहा ॥ पुष्पन्यास ४ ॐ फट फट वन्नि कायस्वाहा ॥
ॐ उग्र नन्दि नम ४ स्वाहा ॥ ४ ॐ वं न्नि कायनम स्वाहा ॐ सिद्धि यागिनि ॥ नम
स्वाहा ॥ ७ ॥ पञ्चपल्लवपूजा ॥ ८ ॥ मान्त्रं वन्दे सं कामं ४ ॥ स्वगर्द नक
विद्रूक ४ कामन्त्र पिनिग्रहद्वँ वि ॥ उग्रचण्डाय नमः ॥ ७ ॥ ब लि ॥ ॐ

ह्रीँ श्रीँ हूँ हू ४ माह्रामत्त ४ विघ्नासायहुँ २ फट २ स्वाहा ॥ १० ॥ ॐ गंगनपतिय
नमो स्वाहा ॥ ॐ स्कं पायनम १ स्वाहा ॥ ॐ मसल कानयनम स्वाहा ॥
पूजा ॥ स्तुति ॥ गनपतिश्च हेरम्ब ॥ ऋन्न ब विघ्निनिनाशीविनायक ॥ सर्व
विघ्नहरन्देव ४ गजवक्त्राय नमः ४ ॥ धूनिगानस्या ॥ १ ॥ कुमारपवनम
देव ४ मयूरवाप विसंस्थित ४ नित्यं कुमार स्वरूपाय ४ कुमार पनमाम्यहं ॥
धूमाधानरूप स्वापि विकराल निशाचरक ॥ धूमावति बलवान् ॥ मास्त

कायनमास्वाहा ॥ ७ ॥ वस्त्रकिरनकं ॥ ह्रधायाशुंध गवक ॥ रतीकविन्दक
वज्रा आवाहयीऽवि ॥ ध्यानथु अनमास्तु ग ॥ ७ ॥ पान ॥ ॐ ह्रिं श्रीं हूं ह ॥
प्रयोगस्यविधुना क्षायहूं २ फट् स्वाहा ॥ ॥ धुप ॥ ॐ अ ४ वज्राय
नि ४ वज्रनाकव्ववन २ धौं धूं हूं २ फट् स्वाहा ॥ ॥ ध्यान ॥ ॐ वज्रा
यनिपिनवर्ध्नुस्या ॥ त्रक मरवाहस वाहिनि ॥ वज्रसास्याविद्रपा
गंव ॥ अ्यवनरजस्या ४ अकुसूगकमन्ध नेधवं ॥ एकान्यास ४ ॥

ॐ हूं फट् वज्रानलेनगः स्वाहा ४ ॥ ॐ विमीगहूँ वज्रायनमस्वाहा ॥ ॐ
वज्रवर्ष्यनमः ४ स्वाहा ४ ॥ ॐ सान्त्रप्रभा नागराजायनमास्वाहा ॥ वज्र
यहायपूजा ४ ॥ ॥ वलि ॥ ॐ वज्रालिपूहेयीनास्य ॥ अकानविकसंह
वा ४ स्वायम्ब्याविद्रयागव ॥ नमगहस वाहिनि ॥ ॥ वलिदिय ॥ ॐ अका
नविकसंज्ञागं ४ पृथ्व वज्रायलीयगहूँ वंहां ममसव सत्वानाव ॥ क्षा
निपूर्वि कुर ४ ॐ ङ वनि ४ गरु २ खव खवाहि वज्रायनियहूँ २ फट्

स्वाहा । १ । थनङगनमस्किनक । मन्त्र । ॐ महश्वर्क्षु कपालेश्व ।
महापत्रे स्वत्रि डि महाक्षा गन्धा वाहनाय फ विधान पूजन भासुन । प्रान ।
ॐ ह्रीं श्रीं हुं फ ४ कामागि नि विघ्न नाशाय हूँ २ फट् स्वाहा । धूप । ॐ क
लाअलि लाडला ४ छन्दनन २ श्री धं हुं २ फट् स्वाहा । ध्यान । माहेश्व
री श्वेत वर्णं वृष वाहनी । त्रैकवक्त्रा । चतुर्भुजा । शूलवरदाक्षी
त्रिशूल पाशं च । जपमाला रक्षया वरदा वगिस्थितं । ॥ षडङ्ग न्यास ४ ॥

ॐ फट् फट् । आजयानियनमः स्वाहा ॐ जिवरपिनमः स्वाहा । ॐ रुद्रव्र
नमः स्वाहा । ॐ आज्वकि नमः स्वाहा । पवपहा नपूजा । नमस्कार । ओं
यति वृषमारुढा । श्वेत वर्णं सुश्वेत रि गाढा गिरि नपा त्र हस्ताव ।
महेश्वरि नमस्तुभ्यं । ॥ बलि । ॐ ककानविकसरं गं । डनम माहेश्वरि सि
द्धिश्वरा नाना साकि कुन्तर धाकिं कुरु स्वधि स्वाहा । ४॥ थनङ्गनमस्कि
नन । ॐ नमः कामानियनमस्तुभ्यं । विंकै डानि हस्तक्षे । जयगिजयम

नित॥ कमाख्या हा गो ३ विध्यान पा स्यन नम स्तु ग॥ ध्यान॥ ॐ ह्रीँ श्रीँ
हूँ ह॥ ॐ ह्लाम रै त्र वि घ्न नासाय हूँ २ फट स्वाहा॥ ध्रुव॥ ॐ व
का मानि॥ उमा नाक॥ श्रवण २ छ्या ग्रु हूँ २ फट स्वाहा॥ ध्यान॥ ॐ
कमा नि॥ नग व नं मयुना वाहिनि॥ त्रकमुखं नि नपाव तुरु
गाया॥ मनरजा रया विड्ग्रग्रेव॥ श्रपनर जाया॥ सकिक
निधन॥ पूजा॥ ॐ ह्रूं फट कामाक्षिय नमस्वाहा॥ ॐ ह्वाधर्व

ह्ना य नम स्वाहा॥ ॐ अ ह्लास कुनायन मस्वाहा॥ वं स्नान नायन म
स्वाहा॥ वमनागना शासनम स्वाहा॥ उमनरायन मस्वाहा॥ पदव
हानवगा॥ तुलि॥ ॐ कामाक्षि वन्हिन मगा॥ व कान विरुशीलावा
स्नाय धावि ड्या मंव॥ नमः मयुनावाहिनि॥ कामाति मयुना रुपा
नक गिनकु वा मनि॥ ३ श्री मवि ड्मुजा व कामा नि नमस्तु त
ॐ वं कात्र विन्न सं जागं॥ श्रग्य कामा वि मयुना संनं॥ ॐ ह्रं व

विग्रह्न २ सर्वसा तिपातिकं वहुँ २ हूं फट् स्वाहा ॥ नैवनसाकि मन ॥
ॐ नमो विष्णु विश्वासमठ कालविद्र ॥ डिमनो मासाधिपु ॥ जयति
कृत ॥ उमके रुलनपक्का तिविक्रत्वन नागनीनदेति विष्णु
कालरुद्रा [illegible] रस्या उपवानस्तगायगः ॥ विष्णु या वालगोड
विष्णुतपुं [illegible]ष्णं नमास्तु ते ॥ पान ॥ ॐ हं ह्रीं हूं हः ॥ जयतिवि
ष्णुसाय हूं २ हूं फट् स्वाहा ॥ धूप ॥ ॐ ठ विष्णु विश्वाकः ॥ ज्ञनपदन २
श्री

श्रीधुं हूं २ हूं फट् स्वाहा ॥ अथ न्यास ॥ ॐ हूं हूं फट् विष्णु वीन
मः स्वाहा ॥ ॐ मनु हंस वायनमः स्वाहा ॥ ॐ जयतिलप्रा नाय
नमः स्वाहा ॥ ॐ मालश्याधिपतये नमः स्वाहा ॥ ॐ नागराजा
यनमः स्वाहा ॥ ॐ धुं धुं रूपायनमः स्वाहा ॥ दीपकलनपूजा
ॐ नि ॥ ॐ विष्णु विगनजन्नत्र ॥ हवितनन सत्ताहिता ॥ छख
नकुघराष्ट वि ॥ दीघ विवनमस्तु ते ॥ वनि ॥ ॐ ठकोनविग

सं रं गं गारुडास नियसु प्रलिप क्षां ॥ इवनि गणेश सर्व्वमा किंशुकि
कुरुहुँ २ फट् स्वाहा ॥ इमिनस किंनन ॥ ॐ नमोऽस्तिन स्या
धानाही नकुंवन्धु ॥ नकान बीजः डिकपधायमाऽवनान्त कामनरु
त्रः कपावरुँनव ॥ पिगनवक्षुवत्रवरुः क्षत्रिकानागनीनवनि
पवपा[illegible]न त्र ॥ सिया ॥ पासाकुल नवासाव ॥ नकुकाक्षावविक ॥
कानासथा वासनरायाऽवीधानपाकुनमस्तु ॥ यान ॥ ॐ हुं ओं हूं
२ सम्वत् ८११ श्रावण शुक्ल ॥ श्रीनिरन वायु रुका

हुं त्रकामनरुत्रविघ्नामायहुं २ फट् स्वाहा ॥ धूप ॥ ॐ नमो वाराहि
रुनवाक ॥ ऋवगनर २ क्षाप्य हुं २ फट् स्वाहा ॥ ॥ पुष्प न्यास ॥
ॐ ह्रं ह्रं ट वाराहियन नमः स्वाहा ॥ ॐ विक्रयवदन नमः स्वाहा ॥ ॐ [illegible]
नरपि नमः स्वाहा ॥ ॐ माहिखासनि नमः स्वाहा ॥ ॥ वसपत्न नवका
अति ॥ ॐ वाराहि महिवः ॥ नकुवन्धुरलमरिमाः ॥ मित्र रुथ
नाऽवि ॥ वाहिन नमस्तु ॥ वलि ॥ ॐ नकानविगसरस्तनरुः देवी नमः

ॐ नमः

हि मना कुरुया निवृनिपय ॐ रवि : [illegible] वनिवृना
कुडवलिसुरकुरश्चवृसानिपास्ती कुरु हुं २ रु ६ स्वाहा :
पक्रिमसानि रुन ।। ॐ स पश्चिमासा : ॐ नायनिन
मसा गयचरु ळुरुकु विड्वा नामरुहव ॐ नच्या वाहडवि
ध्यानपायाँ नमस्तु न : पान : ॐ हुँ ह्रीं हुं हः : वानस्या
विघ्न सायहुँ २ रु ६ स्वाहा : धूप : ॐ नायनि ॐ इमा

कः भुवनगनश्सिधहुँ २ रु ६ स्वाहा : ध्यान : ॐ दायानि
कृकृमननाग शासनि : ॐ श्री था विसानुतिमत्राः वल स्वगा
मनरु शासा : विड्या नकु : भुवनस्वगास्यैः वर्ण्यन्ध्या
ननिय : आकरवन : ॐ रु रु ६ ॐ आयनिनमस्वाहा ।।
ॐ हुं धानवहनमस्वाहा : ॐ विविनपारुनमस्वाहा ॐ वनन
नागनाशयनमस्वाहा : ॐ ॐ आयनिपंथु यि : ॐ ॐ ड संकिम

नमस्त्वाहा॥ ॥ पंचपत्रन्यस्ता॥ ॐ ॐ डायनिविनविनासा॥
यकारे विजयं स्तु वाम्हाय वध विड पानं वः॥ ॐ ञू रू समस्ता नः
नि वा सहिताय॥ पश्चिमः॥ ॐ डयनियहूँ २ रू ८ स्वाहा॥ चवि॥
ॐ पकानाविजस्वररण॥ हीनावजसहिताय ॐ ईवनिरुल्कार स्व
सानिमरूरूरू॥ हूँ २ रू ८ स्वाहा॥ ॥ वायुवमकिनक॥ ॐ
नमावायुवः॥ वाम्हरूप काम्रविनदविकानरूद्र॥ सहानरूँन

नलकुवर्न॥ ॥ ॐ श्रीं उं इ ढनवढ रू॥ वृह किनागर्भनरिपनाशनः
सफम्यथां॥ पूर्णु म्यल निश्चन डिमपूजयण॥ थापवमकनि भुन
स्वम रूपाकविडकै॥ वामगनाथंशकाड विध्मानपारूनमस्तु मः
धान॥ ॐ हुं श्रीं हं हः॥ इ विकान विघ्ननाशाय हूँ २ रू ८ स्वाहा॥ धूपः
ॐ मवामगकैकानरूप॥ छुवगन २ श्रीं धू हूँ २ रू ८ स्वाहा॥ ध्यानः
ॐ वाम्हरूपनकुवनारुस्वागिपेनामनिपिगकसी॥ वनुरुगाय

श्री १८

वरुरगास्याः विश्वाद्र वज्रपनस्वा स्याजमन्त्र ॥ मलाङ्गमनी
भूतन्यास ॥ आरवन ॥ ॐ हूं हूं फट् वाम्हडायनमस्वाहा ॐ कानी
कायनमस्वाहा ॐ वायव्य वननायनमस्वाहा ॥ ॐ वारु किनागना
गायनमस्वाहा ॐ धानवइनमस्वाहा ॥ पवपलाम्पूजा ॥ कुमि
ॐ वा मन्त्रायनमास्वाः ॥ कालिसूर्य्यप्रसाशिनस्ध वायीकृन्नरू
पिवाःनमः ॐ हूं पन वाहा नि ॥ बलि ॐ वायव्य वा मन्त्र ककाः

नवइनिशमिरु नियहूं हूं फट् ॥ यगासनि मा हा धा नरू पिनि ॥ वि
सर्व्वसालिपालि हरहं फट् स्वाहा ॥ ॐ सानाम किगन ॥ ॐ मह
नरि नमस्तु ॥ विश्वरूपं गरु नको थुः ॥ आवाहनमविसर्जन ॥
रुद्रिकायुःस्वाहा ॥ डाक वि ॥ ध्यानपास्य नमस्तु ॥ पान ॥
ॐ ॐ ह्रीं हुं हुं हौं ह्रीं काड विविधु नासाग्रु हुं फट् स्वाहा ॥ पूजा ॥ ॐ ल
आग्निशिघि नाकः ॥ ज्वल त्रयरु ह्रीं धु हुं फट् स्वाहा ॥ ॥ ध्यान ॥

ॐ महानग्निधूमवर्णाः कृष्णाम्बरा सिंहवाहिनी चतुर्भुजा
भ्रामनरस्कारा सा विड्वालाव ऋपत्नरस्कारा पञ्चवक्त्र
मनि पादन्यास आकर्षण ॐ दुर्गे दुर्गे हानमहीनम
स्वाहा ॐ शिवसंचनाय नमः स्वाहा ॐ वडिकनायनमः स्वाहा
ॐ महेश्वरनाय नमः स्वाहा ॐ सिंहासनिनमः स्वाहा पञ्चपत्रानपूजो
पनि ॐ ह्रः सासमहानक्रियः आकानविजसरस्वा स्वाहा पावी
इध्यानव नमस्कर सिंहवाहिनी बलि ॐ द्रसानवन्दि उकिः
फ्रं सं वंनुयं ङ वनि क्रुक्रक् रखरखखाहिर सवसानि स्वाहा
रहं रहं स्वाहा ०० यनः इंगवतिविस ॐ ह्रः शयः
पाधिपतयनमः स्वाहा ॐ ऊं ग्रमायु पाधिपतनमः स्वाहा ॐ वरु
नायहंसगाधिपतनमः स्वाहा ॐ ह्रः सानायरूपाधिपतनमः स्वाहा
ॐ जनकानिवारूसाधिपतनमः स्वाहा पक्षिर ॐ नवायव

पवनमधिप नमः स्वाहा ॥ ॐ ज्रं जयनगाधिपायनमः स्वाहा ॥
ॐ हूँ सूर्य्ययज्ञसाधिपायनमः स्वाहा ॥ ॐ पवम ॥ ॐ ब्रह्माण्डहाकाधि
पायनमः स्वाहा ॥ ॐ बबर पद्माय ॥ शर्व हाकमारस्थानमः स्वाहा ॥
ॐ हृं हृं डं वमविनिय ॥ ज्रं शनाधिपायनमः स्वाहा ॥ पवम ॥ ॐ म्ह
रास वनागमाधिपायनमः स्वाहा ॥ ॐ आँ क्रिं ह्रीं हुँ हं हः स्वाहा ॥
दधिमस ॥ बलिविय ॥ ॐ नमो ॥ शिवान्दक वलिङ्ग घ्रा नकुन

महाक्रोधमछ बनपनाकम ॐ डबति ४ गन्ध २ खखखाहि २ सब
सानिनकाक्रुहुँ २ फट् स्वाहा ॥ ॐ ॥ थनवहानमस्तुनम ॥ स्वाहा ॥
थनश्ववामगनाआकाय ॥ ॥ ॐ नमो ज्ञानवज्रमत्वाय ॥ ॐ स्वास्ना
सर्वस्रगासिद्धि ॥ नमस्कारमौर्ब्ध ॥ गन्धर्वयक्षाग्रहगणनव ॥ यक्षरस्ना
निवेनगदिश्रा ॥ नपुक्रमौनृपथिवगनही ॥ कृगाजनिविष्णु पया
भिगास्ति ॥ सपुत्रगणसहस्र ५ सर्थ ॥ क्रुत्वा ० हायात ॥ जनन्महाय ॥

स्वभव बुद्धनि नमस्ते कृत्वा। यनञ्च बुद्ध नाम यस्य। महाकृपा स्कन्ध विम
ऽम्बरः। नगम्नम्ः। सर्वषु ज्ञवसन्निः। ३॥ शनिनसर्वज्ञामूर्त शम्भम
षः। नत्वा नय वापिकगा धिवाशाः। वा पिगञ्च नमश्च रयपत्र वमूः। कृषम्
डिथषूः। महानहिषुः। ४। ॐ गमम याष्वखु रकानन्तेषूः। ७ या त
यडवत्न हृष्ठ यवः। विहानवं त्वा वसपाश भय घ्र मध्यम सत्ता महव
कृगमानो। ५॥ धरूपरूगा विकूगह्रू वसन्निः। ॐ वृं विकृमहापद्म

महारमत्तानम्। ६॥ सिंहद्यु वसन्निधा नावमहा गविषूः। ह्रीं य
षृदि याव हूं गां। मनीस्म ज्ञानमूर्त वसन्निधवः॥ १। ॥ हूं ॥ यू
स्तवगधमाल्यां। धूपवति दिपवति विधिरः। पुष्पाग्र कृन्दुरून्
प्रीवतुवडं। ॐ देवकर्म सुरूहहृगतः। ७। ॐ ज्ञानवज्र प्रि
हृदवसर्प। ॐ भवति। गतेनु अविनिष्ठः। ज्ञावेपति वाग्धन
धिपक्व। ६६। ॐ सागर का पिपत्ति वंह सवा। सउह्व वज्र केपिना

महावः ऽ वासभ तारुवियवगः धत्रा धनागरु ख्यगर्तसमनः १० ॥
ष्ववति। द्विवति। र्ने ख्यने षगनाषिपवमनीनथः रुजरुजि
घुन्कुपिवन्कुषकः ॐ ऽ वक र्मसरुहं ऽ गाउ। ११ । त्रु कव
कुस्मऽमनः वर्वं कऽ वग्रहागमपाऽाप॰ रुत्रुः ऽ न्या
ग्मत्रविहाषठः १२ । सात्रन स्रुन गरुमः ञ्म मानगाद्वि
ह्राषठः कनहाषमहान्धः ऽ न्वऽ नसमासिनीः १३ । ध्लुक

त्रान रिगेह सः वामऽ द्धीनिरीरुद्धिः उमाऽ विरु सरुवाः
॥ १४ ॥ जयावँव विगयावः जुजि गज्ुपत्राद्रिद। रुडका
निमता सून कातितु भाजीनि। १५ ॥ ॐ द्वि वद्रि ध्याविऽष्टः
कवाजिनिपि आषिन्यागाम वासिगथ्याजिनि। १६ । ध्यातव
यामत्वरपाः ऽष्टु नुकपातनिः कपाहमात्रिन्याः ऽर्द्ध मायम
हद्धिका॥ १७ । खगहस्मा पद्मभुहस्माः वज्रहैं स्मा पद्म गथा

...वस पाकि निमहाभैरे । सर्वकर्मानुसाधक । ... । योगमहे

नमहमागि । व ह ... विघ्न ... कथा । न थागर महाकाल ... नीत

कर्ने नाम सिंधिका ॥ १२ ॥ ॐ ह्रं व ग ... नि भा वा हं न वि स ब

ॐ क क क ड नः व व वं ... न स्व स्व सं नः घ घ घी ॰ ... यरु

ग मा न स्य स र्वे ... पा कि रु र हूं ॥ १२ ॥ ... ॥ ... यवय

तवपूजाः । व विसर्जन मकाक । ... [illegible] ... यनद

ह कायनय । । ॐ नमः शान्ति काय । ... ॐ कुं ॐ जगव

वंव न्ताइ ग । ... ह्रूं ह्रूं ह्रूं का न र वं । पकलिड व ड नं । रव

गपा स ध न न्ते । ॐ ॐ ॐ डलु पा लि ज मनू । भि मि ज्ञिमा । ॐ ॐ

न रु स्फ । गं गं गं गा । निमं ज्ञ । ह्य मु विजय निमि ... स्व

ाडनम ब स्फ । १ । धीं धी धं धा न र षं धुं धुं कि ... धूं

... धं वि ना धा बे । ॐ ह्रं ह्रं हा न र वं । मि रु व न धा नि

ध्यातं ऽ कैं कैं कुं वा त्र र पं ऽ द्र चु नि ग ब्र । नि ऽ ह्र मा त्र वि

रपि ऽ धं धुं धुं ऽ म्र ब क्र्यु ल म वि र ब न गा ऽ का न पा ल ति स

नै ऽ तुं ग तुं पि ल त्र पं ऽ भ म र य ह त्र नं सि छि ब फ्र न म तु र

गा नै कुं कैं का न ल ह ऽ प व ति क म हुँ मा ऽ वा म द स्व वा पा

नै ऽ खुं खुं र खा ऽ द ह स्त ऽ ठ म त्र घि गि ऊ । मा म्र क्र मा त्रा

स ला सा त्रं नं त्रं त्रू ठ मा मा ऽ क न नैं वि र खि ना ऽ दि वों ति क

वौसफु ॥

ASHA ARCHIVES 2638

॥ वि ॥

करोति ॥ ॐ श्रीउग्रचण्ड ॥ भगवति विनायकवि ॥ सिद्धि रं ॐ नम

स्तुते ॥ ॥ इति श्रीचण्डिकास्तवं समाप्तः ॥ ॥

ॐ नमः श्रीवज्रसत्वाय ॥ नमस्ते ॥ वाधाव वनकक्कः ॥ गिमाडन ॥

उ निवसगनलियकः ॥ इइनलायकः ॥ अर्घयाय थायस ॥ वन्ह

वात्राथिनकः ॥ वासनयाय ॥ वनहालयाय्ह वनः ॥ आकिगस्थ ॥

स्वनुमडनयाय ॥ थानरनय ॥ यनमग थापनायाय ॥ वाधाव

आक्रः ॥ यवखवनमगयरः ॥ भआर ॥ डजपयकः ॥ क्वानकाय ॥ डान

पतिरुकमानस्य नर्गसनति ॥ पापानतिपापमाक्कननिमि स्वात्य

नः ॥ तुनं पसूरयक्तनं सरत्वयामिटं ॥ थनङग नमडनडनकः ॥ धुडाव ॥

सरगइवपूजायायक्रसकनसः ॥ श्रीमग श्री ३ स ॐ ह्वगारगन

लकस्य पाआदि ऋष्यपत्निस्वाहा ॥ ॐ नमो श्रीसआयनमस्वाहा

॥ १ ॥ ॐ सक्कवासनमस्वाहा ॥ २ ॥ ॐ श्रीआदिआयनमस्वाहा ॥ ३ ॥

ॐ रविआयनमस्वाहा ॥ ४ ॥ ॐ गभस्तिआयनमस्वाहा ॥ ५ ॥
ॐ त्वष्ट्रेयनमस्वाहा ॥ ६ ॥ ॐ सवितायस्वाहा ॥ ७ ॥ ॐ दिवाकरा
यनमस्वाहा ॥ ८ ॥ ॐ घर्मांशवेयनमस्वाहा ॥ ९ ॥ ॐ नक्षत्रमित्राय
नमस्वाहा ॥ १० ॥ ॐ प्रभाकरायनमस्वाहा ॥ ११ ॥ ॐ वैध्यायनम
स्वाहा ॥ १२ ॥ ॐ खगायनमस्वाहा ॥ १३ ॥ ॐ मार्तण्डयेनमस्वाहा ॥ १४
यत्रयत्नन पूजा ॥ स्वानेन्द्रक्रं ॥ ३ ॥ ॐ नमश्री ॥ सूर्य ध्यानं ॥

नगमीमूववसेकोमः ॥ पद्मासनगसमपर्ण ॥ सप्ताश्वसमाकं ॥ ७ ॥
वकरस्थं नमाम्यहं ॥ ० ॥ ॐ कुंकुमस्वालसकलं ॥ इन्द्रप्रका
दिक्षिविचित्रहंस ॥ ता नसवरं ॥ निशाकरं नमामिहं ॥ सुमया ॥ ॐ ग
णायनमः ॥ विनितहाता पितीगज ॥ सुगनकर सहानकिपत्रं ॥ कुमा
र ज्ञानसारस्कं आदि नागनमामिहं ॥ बुधया ॥ ॐ गहा वनाधिपि
कादिसवनापकयं ॥ कनपमासनस्थित सुखं ॥ हाहिनिनमामि

हे। वहस्रपलिया। ॐ वावश्रींनयानम। ॐप्र मना डिपक्षी। म्हाक्का
हेकावनेयरं। नह्लपाना क्षपानिह्ने। वावस्रतिनममिहे। ॐ ॐ
क्षैयनमः। नानास्राकृसुरंभ्रघ। ॐत्र नै ङत्रे स्रावनः। कृस्राक
मांकिहस्रक्षुः। ऋस्यग्रन्नमामिहे। ॐ निवनयास्नमः। छ्विक
मि त्रस्र सह्नेगन वानारस्रकने। मत्र ब्रुछकायववि धूनें
नमामिहे। नहृ अनमः। षर्गीपासकहेवग्र। कायावप

कूरुबने। विशिनविग्र कृहारं। श्रीति ४ कनमामिहे। ॐ ज्र ॐ
नियनमः १। ल्व्रनियनमः २। क्रैतिकायनमः ३। म्हाति
नियनमः ४। मर्गोछिजायनमः ५। ॐ डछिगनोकवा
न। ॐ। थनत्रुघ। ॐ नम ॐ य्यैयननागतिया। त्रमथा
डास्र थ्यश्कनृनिकं। लिकामनिशहिशति। पनभूरुग्या
धा। नंमिस्रनेपतिशहय। अग्याये। ब्राह्मणपातये।
॥श्री॥

सिहगरवकउगिकँ। कगरकुसनय। कारनिकंनमासबु
थ्यबु जुसुगति। रुगबाति। लुर्ग्याय जुयायगति। रु गबति।
लुर्ग्याय जुयवपति छस्वारा। सुरव पुग्रा। ०। सिधनजुय।
स्वन ननकं। गरहपुगा। उविना। ज्ञासिवाउ। ननबडाबः
सगवनविय। ॐ। २ सिननकाकायगाताःयत्रिपान
समस्कु थापनायागधनंकावः। नसं। सुर्ग्यापु। गरुपाता

थु। छु डावः। छगारु इरुपकं। छ डावः। गरनमेंतुन।
डिगरनिति समधिजपमाघुडाब। कुंसपुगा। धुडावः। का
मानिपुगा। ज्ञा वार्ग्यस्यनः। रुन डिसंइ गरनिसाबनायाय।
थुनिव डिगरनिवनिविय। थुनिवः। थकानिस्यन। वंइकुमा
कः। नक्षस्री। नरवपानथस्रीहयावः। स्वनिकसछ्वन। गर
मंइनइनकं। धडावः। विसकुनयाय। थुनिवः। प्रवर्ग्याया

कुस्यँनं॰ सप्प विवन॰ भिञ्चि निकः॰ कुँ दिका पाल्ल॰ गनुम
ह्माय॰ गम थायड प्वान काय॰ ॐ धा पिविलामि निस्कन॰
कुगायस र्व सत्वा थंथि डहवार्य थानगम॰ ० गलु धुवम विरवपु
नञायगम नामस्कु॰ ॐ धर्म्म धातुगर्भ स्वास॰ ० ॰ साजा
बाजं॰ गथ छुन था स्य लाछाथ्य॰ था कु धवकः॰ धनल थुः॰
श्रुनः॰ जिनरु सप ह्मायरा मा॰ छुनद्वन सकं॰ न्यस॰ वु

नास्कः॰ कुमा॰ थ्व विवनः निकास्यँ॰ पसनइयमानः॰
गनू बाव॰ सञ्चि सिथस॰ जिन म धायाना॰ थव स्कः॰ धन
लथ॰ था कुधकः॰ सकि सिथस॰ भावन नाम॰ लिकुः॰
भवनाम थस्कः॰ उवा सिकना मधायः॰ सिथस्री मधनलप
मान॰ डिघापडान काय मान॰ विवनिका॰ थन विसज
न॰ थ्व निवः निनाजन याय॰ मनाखन नाखः॰ मणरु॰

गानचा गाय: लगनन गाय: कृनबसत्र ज्ञाडिनः डि ग गास्य
क्षाय: बसन गियकँ: सहनत्रय: बजन क्षा विय: थ निनः
सडनायिन काब: स्नान गनकँ: गनत्र गा: थ बिना:
धू डाब: ऋरि स्यब: ऋसि वाड: स्नकन: थ निव: बिस
जन: क्षमा तिरडा क्षीय: थ निव: सघ रागयाय: थ नि
बस्या त सा सयनवत्रिविसं: गीत्रसह: गनवक्रासह: ड

थर नाव: थन माव: व निपागत्य या गसा: थथ मानजन:
ॐ गि समाव कन विधि समाफ। छुरु:॥ ॥
॥ नागकानयि॥ ताजरुक नमा० ॥ कानयीनँ थिउवा कान घि
ना: मूमू निन कं काना२ धनकापि थिउवाना: कन्त्रूल
कियालीननाना॥ श्री ॥ मनयज कृन्नूनवाजयाया२
निविवाजयीया: वजयिया॥ ॥ तहिवात्रखाजयाम...

मयनानावनयियायियार२ह्न निकालिगनमानिजन ःदृह
नूवाजयीयायियया ॥ क्रे ॥ वडसम कस्नुनीसीह्ना ः कपूनला
वनयायियीर२ मानिया ॐ थनग्रानिजन ः नहिवानूखाज
यियायियया ॥ क्रे ॥ पखनषन कनके ः [illegible] द्वनमूनि
यायियार२ नीलसहज्र गवज्रावयीँ नहिजमना वनप्रन
मामिया ॥ क्रे ॥ ॥ नगमानग्री ः ॥ महजमनानूव ः हह ग

हनूवनायार२ निरू वननाथ ः नहि विनामा ः हजयिमान
म ः गद्ध रिरूक२ कमनकुलिम ः जागमहाव ः [illegible] नस
नूयिनि ः दविवीम्ह थायिनि२ कूदठिनमना ः माहास्
खदाना ॥ क्रे ॥ उद्वहि दनानूषिन प्रयिह्य२ प्रानविह
वक्का ः रुदिनगयद्दूं ॥ क्रे ॥ [illegible] पसाद ः [illegible] कूय
२ दहीमनायन ः संसानमम्ददन ः ॥ ॥ नागप्र

मङनि ॥ मा० ॥ मदनसमयचक्रमदलमयुर्नुरद्वादसंह नघ
ङवङचानूवयन ॥ क्र ॥ जानतुकनून ः श्रीमंवनङागि मन
निरश्रीयावद्धनादवीमानूनी ॥ क्र ॥ तकिनिनामारवन्तु य
नाल्तनूयिनिरसानीमानखङवायियान ॥ क्र ॥ कायवा
कचित ः तिनिरहूवनर वानवतियामूरुहवतायनी ॥
क्र ॥ यामाश्रागिनीमचीसमनसंरुवरष्णमूसमम

न ः श्रीहनूव ॥ क्र ॥ ॥ नागङनवर्जे ॥ तायमा०
॥ घिरुङुधिम्रखतिनयनारमंकुठकमदिगवना ॥ क्र ॥ डर
तैनातातै ः नाततैनात ॥ वामकनाठकदहिनकनति र ग
ङादभारुननविरहषित ॥ क्र ॥ मूर्त्तमंनुयमाउतादव
नमूतिरननमिलमानमूश्वरिता ॥ क्र ॥ सतमुनूवनन
मिनगतधचियारवङवानाहिश्वलिगित ॥ क्र ॥

२ नागमक्ष्म० ॥ इर्ञमान ॥ प्रम्रदितश्चादिव सरूमिम्रदनिमनः म
चूमदलमनस्थिठलयनाश्वादमीस्थरुचरुवदनस्ममरावरुवाना
दिश्चानिगना ॥ र्हुं र्हुं र्हुं २ दमदिगारवनमानमयनमीवनवाब्रि
यानरह्वद श्चानिगनरुवयमीरावः नाबयिदानसवलनाया ॥
२ ॥ कृ लिमथ्वथगरु नर्म्माविरूषितः कनठिदमत्रुतिकृनबना
२मारु चूनिमतकवालखहाराधपामवनगुवह्न सिनब्वना ॥ २ ॥

पवरुिनवनमकृतश्चानकठषतम्रदाश्चारुनस्रषिताश्चा
निकानिहयश्चालीरुनायपीश्चाद्रुनम्मिवरुनकूक्कतन ॥
२ ॥ ननमिलमान श्चलम्रश्रीमर्मवेचनदिद्यनश्चतिनीकनुनदि
यारुनमरम्रनूतरुप्रयिमननगावठिवनमाद्यवरुमिता ॥ २
॥ नागरुन्दान ॥ तानमा० ॥ ॐ प्रा र्हुं ममरानमत्रुति मालजी र्हुं प्र
म्रतमीकामारखर्वनवादनतिनयनावानिवदनरुयकना ॥ दव र्हुं म

वृम्रु उिम्र

र्हुं र्हुं श्चा म्र
रानि
मन

श्रीमल्लकानङ्कानमङ्गतिः षद्दिसिधिवनदात॥ ॥ कनतिष
पनखगतिङ्गनमानदर्थसद्धपित॥ ॥ सिपङ्कदयापनिप्रला
निद्रीः अर्थवम्मद्दमाया२ मालीवकार जिमवना मागनवानि
तमहाविन्ना॥ ॥ दुष्टकनालयालजिकाः स्य रिकुनिडङ्कक
सा२ रजगकारनमन्रषिनदलाश्रीमसातिथरयकना॥ ॥
श्रीदवमल्लकानदिस्वनव्यापितः दवमननलसवित२ मतङ्ग

चमनश्रीनामाशुयनचननकुमनर्वपित॥ ॥ ॥
२ ठ विं ँमन वनविनासत्रिकयि श्म २ उ थ ठ वि
ना ठ म क्षनला याङ्गे गा २ न जगत नि वासियाने ः ङ्गमि
मप्रु मियानिनतविलास २ महजमद नियाजिनहूँन २ प्रविस्यपि
नाचयियजगनिवासियाना ॥ ॥ वउयागीनी दर्थ्यं कन
मया २ वजवाना। हि श्रातिगनः कानना चयिनजग गनिवा

सियान ॥४२ ।उ थहरु ना छ: करनकवान २ञम ज्ञालिग
ननीतावल्कु: वदिन्नाव पिञगगननिवासियाम्र । ४२ ।
उ थरु नाहाँ श्री संवनवङवानाहि २ न्नगगननिवासियान्न:
श्लो० ॥ थनलोसमान: ०० । सवन्न्रयागनम्ना। सवेनाथागस्याग
नानम: सवधमागननमा ड समन्तुनेमूनमें: संनाधमागसीं
सलें: स्नान वज्ञाविलधक: समन्तरुङवावाजे। सारवमन्तु

२ कसगघडवह्नुङञक्षञ० ७ डनतथडवनवढवरुमयनतवमवहा
नेमूनमें: सर्वनरुनसंवुर्लु । सवनरुनवतिनं: समनरुङकाया
जे: मनामन्तुनेमूनमें । सर्वसमामहासिद्धि । श्रुद्धवकिनिनि
मनें । समनरुङवावाजे । धासमंडननेमानत्ये । । धनताधवि
रधकवि रपात्नु: रतुडिपावति । सुररुकामनाथन । सुठिनम
स्तु । श्री २ हं सगपासु श्रीनिवाननमडन । वासकिरुयुरनररुमि
ररि रुकामनाथनं । सयिनमस्तु: श्री श्रीनविताधुनिंडसन
राज: मानिगन । धिपुनि श्री २ माहा नाजाधिनान्न । श्री श्रीगय

विनसन। अष्टदलगसिद्धिपुनाप। कामनाथन। यजनद्धिरथिन
मस्तु। श्री श्री किनिघविदस। प्रमकानस्तुगिचि। महाविहार
इसकल्यानकामनाथन। श्रुथिनमस्तु। जनपगिहजनस्य। श्राय
श्रीहीालाकामनाथना। जमादनकासिद्धिकामनाथन। श्रीमत्र श्री 2
श्रीवक्रसंवन। वज्रवानादि। मासप्रतिष्ठीप जागनवक्रमाहा
यान। संघनकानंन। निमि याथन। सवनाथागनास्ताग। सवना

थागनानय। सवधमगनेनामा। ॐ समंदनमुत्रमे। सवमनपसा
थं। उथउथरुनानय। ॐ नमः श्रीगनसेदायः ३
गनेंद्रनरदेककृत्वा। वदरुवानिछिमग्न। संक्षानन्दय प्यास। गा
प्या। सश्रीगगरनगा। प्रसादनमयाय। स्तानमरुव। नमस्तुचक्र था
नाथायक। नमस्तुरुवगानति। नमस्तु सुपनूपाय। नमस्तु सु
नडाकिनिय। नमस्तु हुं। नमस्तु हुं। नमस्तु हुं। नमानमः। रुग

आहं तां नमस्यामि श्रीगगनचक्रायनमः। नमस्ते सनदनाताः।
श्वेतकेतु। प्रविशाग। गगनचक्रमूर्तमे। ज्ञागिनिज्ञामेदने। दश
नपान। वज्रमित्रराजन। यनिगत्रसासिद्धिमूलमे। निधनकुबेर।
स्थिगसर्व सैन्नकश्वप्रहैंकर। वज्रश्रहाक। नानाविधरूपकल्पक
स्थ। स्ववक्रप्रनयतिसानय। तथागतरूप व्यस्तनिवृध यावृत्तनस्म
कनाकसवन। नास्यामनोहजातयावहाः मान। गिम। नब। वांछ्यु

वन। श्वेश्य। स्तम्भविरुद्ध भस्मान। नसने। पनावनि। धूप। वनिप
तान। नठमध्य। पनावसध्य। श्रीवज्रसत्वपद। ससानइस्व
यतिमृगमे। रुधवनवृध। गन्धानिपुष्पचनधुप। नैवद्यच। न
मामिसिनासौजरनिनमस्तुते। नमस्ते जिनवज्रचक्रनायक।
नमस्ते श्रीज्ञानवज्र। चक्रनायक। नमस्ते श्रीहेवज्रचक्र
नायक। नमस्ते श्रीचक्रसंवर। चक्रनायक। नमस्ते ज

कि निवा अका ः नमानम ः नुपिनि । खडभाहायक ः गउक्र विना ः सत्र
विनगिजन । काका स्यानाद्य । डिगवानकष्ठ ः विनक्ष्व निविमग
नमा मिहं ः निस्यभंसक्र ः दहनरुन विफ । डंपु पिंथा ः पविथ
ः रुगापुरुनं । छअपश्र । भवापका । भना प्रक । डपसमा स्थानक
वा । पमरु बुताम्र निक्ष्वसंपा ः वृधरु ः धमरु । सीपरु । नाथान
भासरुनं । डुसंगनवक्रुवतं नं । सहाकं नागुवरचक्रनां । विरगक्र

ता विः भ्र नमं । हे ता सआ भानिकहीरुमदनं । नमासरुनं ।
नहजनवक्रवऊँनं । संपुर्कवगग भा नमानह्याप डं । सवडानं
डिना सर्वमनाहन । नबाज किनिहरकारुडिना । वक्रुपतिवक्रम
। क्रिनग्रनसु भाहस्याडं । परुपामा गनानम । नासिछि वनरवदि
रुवयानावति । नाजसियनम । ॐ गिगनवक्रुमा थासगापक ।
स्वाणह्म । ७ ुरु । २ नागछ धाति । । वामकनननखपन । पायन वाग
कन

नहरु डिमा। २ बङकनगति डिय। मानव क्रूड सनर भिरुगिनामयि ना
मनाई। हे बज्रनाया। निनवन निर्नकं थियार सपा वनस्कुनना। नक
नति यनायनविकन्नत स्वङनर नता नतिनङिमम्र। तास्तनहव
ङन। ॐ। भुङयनसपिनपिधनहवनथासुकायार जगनमय
सवमहरु तारुनछवङनं। ॐ। रुनयिसं तानवनः वाङयिडम
र२ रुनयिजगनि। निरुवनसहरवा।

२नागारुनवि। ब्राङ सयानमिनारुव। रवद्विभी तावङवयन। धाङ सया
रुहवकानिनानि। नन्वावयिम हे गङवर्मयनमः वामाहिरना न
रवा मिगनन। सवनसन सुसंरुत २ मता स्वरु निनकनविनासमि
ङगं ना छुसंस्ना नानाया। ता किनितामा खङनाहारुपिनिवङा
गिनि २ वङरकुवन। ङगव वाङ्ङ। रवङनवसयनम। ॐ
कायवाकचित्तयवका २ आथणिनिवबिस २ वाहिनरुनायन्
मराव। क्षगिनिङ्गिंविडिया। ॐ। काकाम्याडि छुरुङवि। वोन

।नानारूपविमोह २ पद्मपद्मनागरूपं ; वानवगाक्षावनग । धुर
वाधिपाका धमन्त्रक्षनयिय ; ध्यायञ्जागीनिवृद्धहर कटनमागत
उनमकृष्णसंवह ; नावयिसरुजानन्दपं । धुर । ॐ । नागग्म
वनिभूक्ष्टना ; सर्वद्रवविश्वमानस । विसादनिष्कृदनिः वजेमलिनव सव
कनागिनि । त्रिकाल धनियप्रावन ; नमामि वाञ्छनसिद्धि नागीनि ; ना रुध
गीनीजनमंडिता २ जुनिधिसमसिद्धि नागिनि ; विश्वमात्र विखडिता ;
शाडिनमडन नंगसमनेस । दिवमाप सुक्ष्मरिता ; रकिकलु नलिलोव

।मथनविरक्षिता । धुर । कानगिकयान मानछुडनि ; मकुनकस्तडिग
वना २ रङमुडरवस्वार्गधानि ; पतजिकारुयकना ; धुर । ठज्ञा ङवि
त्रकुनिडान ; ब्रकनविक्षविरापिता २ रुक्षा रवनलिधगनधनियाः
जुनधू नकलु पागमनमिया ; धुर । ॐ । २ नागनामकी । सुयतिनडिन रुप
मलुनवका २ उंछिन्न्रहुद्गुप्राकविनानं २ सुव्रतिनाडितकुंयसनाक २ त नि
ङनतग्रिनववननमनागी ; धुर । य कु वेक्षाले कमद्दुजगायं २ यक्ष्मी स
कुनाटकुविठक्कुडिद्या ; धर । यं द्रहिक्कुमहासहनामा २ नथीकि दिन

ग्रि न व्र न म नोहि । ५२ ।। अवकयाम मबिन रिहु २ माथरहिव
त ज्ञ थ नसे घवि वह । ५२ । वृधर निवह वाध गुहली २ न्नसानिद
नरविद्य स्वयेर । ५२ । वधगिजनजहावति आविनधनरधी
२ वाधिविरा नुनयाविव निगिमिद्द सकन्तपभाद्द । ५२ । भनाह २
भनाह २ नताहहु ३ । धर्मायो स ग न । कोमनेपी
गोरु पे । ने के । नाविनामि ।। न्यरे मौ गो जिन सद निखो
तमो मि गो प्रे कौ निं ६५ ६४ निखो ।

५म
३ म

२ डि रह गह सुख गिनयना । सकु गङ् माहि

ग वना २ दुनागा । जनागा । वा स कु नवगु कुइ लि
नकनेलि । का द्दु ज्ञा रुवन । विर हि न २
स जस दुव सु गादनम सरु लि । नेस्मि
नमान सुध रि न । लन मरदु वन ने लि
त्र ग ग धविया । वग वावा हि ज्ञा विगि
गा । नागवी राम । उदि गागवयनववनद्द गा ।
ब वही गम दुकाको । का क विगा । धानद्द पुन र
स । निलावविगा २ ज्ञ षय निवैगनमा कृ कि गा ।
दुनेकनमद्दन । मधुगगा २ द्द वा शनन तनमिशन
मिगा । । द्दग धाविजगिरम । युगनिहिन
रेक न ना ग गनमस विक गा । । सगि पवनप
वि । जरकगगा २ व कवावा हि र हे निनमिगा

[illegible]

२ना ग कक्क। नवडायमान। ज्ञनिधानवदनेञमि ना गमनति। खयन
मृदमना। ध्याघवमहविंगाः२नेमा मिनमा मि ह्री मगमाद्दकान। उति
नकनति धनवामनि मन। हा ड आठनन रखिनडहा। मकनमानव
न। डयनिहना। रुननस वडिन। ठनर महननं। मिछिमिछि वनडायक
ड वा। निरु वनविना ह्री महाकानसननी। ॐ। २ नाग ॐ नवि। नानइडाय
नाथ। प्रविसठरु गवनमना मूरुवू नय। डसयीनून न वाधिपंड २ड
नमडान मरुयवधनमावय। यनमा मूणमयपयंनमगरु। फ। उति

वछ माहायानलयानम। वाधिविनाम ग्रै पानन न २ड सयिरु रु मलम ञन
नगरह। नथनानू नन वाधिपंड। फ। ॐ सवन थागन। ञ जनयान
घा नयामिन नायननर २ पर्वा पासडिन्निनयनिवमनू। कमनकृनि
मयनिशनवम। फ। ॐ कु स मङ ड क मनानाह्री निकमहा। ञिनकहसया
ञावाग्रयड २ मकोञ्जनडयंनसनरुयं। डसवनगनियडसाजन।
फ। नमामिनमा मि ह्री नकु नसं वन। गरु वा ञु विरुडि ञुधनियार
सगमरनवननकमनयुह्रीड। ञनूनन वाधिपंड। ॐ नगमञमाय।

इगमान। ०माडिन श्वाडिइसस्मी स्डनिसन। प्रत्सजु
२त्राग ६१ गमम मा ग्रा। मनमा०। नि ग्नप्मथनि नवि ग्रकनापि
२५ मात्निगन सलन ९१ गमना। ध्रु।। कुडिस्ह थसिन ६गाउडिनमना
ठि२ ज्ञनहसञ्ङ क्विहस जकु जागिनि। ध्रु। नडिन सनरपिनिमि
धुसगमभि२ न्वि नपवन पनिनवकु। ग्रनृकनपवाकि गकतिग
२ गइहु वनाखापायपियुबं। ध्रु। बदशकनकु ग्रमसिग्रिनाडि२
भेग्याचास राघमहा नृवजा ना। ॐ।

२मागा विहास। मा०। धनधइधनधानधनं२धानयधानयनकिशि
ज्ञ२ मइ मड वजधिकु समप। कइन्जागग्हविश्रवन। ध्रु। कुन
कुन्वजधमसमयश्व श्वानाहि कमन वसकु डुनिकुह निगजवर
२सस माक न ९२ नु कमनवन। ध्रु। वजसर्या छलु नगमार२इइम
मसमनसडकु महुँ। कन्छिकह्रुकमानपह २ नगनाघकवनवृम्रवन
। ध्रु। ९गा क्वनिक्व सावपनम२६गा ९वन सहजमडगमहुँ धहिन्
हिङिनेहिकुसमय। कायनि वन्धनना वकुधन। ध्रु। हुँगीपलुाध

कसेयंये २ मखह वधनवनलमय २ हुँ सद ज्वाडिन वनल वने : व्रन
मामिह नन वज वसिये : ॐ । नाग : मावजुनि : वकि वुकि माडि
जहिनि वजानि : [illegible] थकान ज्यामाधानि छिनन व नसं [illegible] नि । वर । वकि वकि
गैयाह रव वजक ला निर : रव न कन छा डिहाने । निना व नसं
वाहि : [illegible] व कु न थोगन : के व धानि ॐ : डिर मारगाह
रव मैं रकु मकनाजा : वर । प्रस्तापायठधा नियेउमरेष ध्वागरस
वै सलाड धानी ये : वकि वाकि मेजा : वर । जुथं कान ज्वाबु न्हि देट

x ज्वहा x
रव : सहज तं समव २ क नरमजधामिनी । सबु [illegible] न । ॐ ।
रमा गनवनि न : कस्याडि चथिन : ज्यला स्ये सिनम डि न : कल्य डि
सि छिकानिजवनि निरवन : ववन धाउह ओ निगहुं काय :
जुस्कृनाजा एवनकिनवनं २ ज्वसव रु यहवनी : सुनंइस्
नजन मावव न : मडैंवाधहहन शवि वि क्षि नि वुषन विधनह्यु
उन : ॐ त्रडिहाकयानसं नासंकुन : उहिनकनगिधन : वुवहनि
निहोायन वन नइयहत मना : रगनिरामना : वामरकत्तौगाछह

व क्र कयाना ॥ रु व समङतसं नमण पाग्रं २ थान कु इत विभा ज्र
कुह्रासः विङस्ख नामनसान ङ सभ ॥ आयरम निवसनः नसम
ङमाना२क्रहि वचिरवाङ मसिद्धि सङ्नं २ गाबनिसनगः वग
गुरु नत्वधान ॥ हृ धस वनासै नैसान ङ सभ २ वुधवमसासनसघ
वचिनरुन ॥ श्री माहिका नगवपाङसैन्ने ॥ ॐ ॥ २ नागा नामकवि ॥
नाथ ॥ कमनविकासि: नक्लिनि हृक्षसनं ॥ कुमर्के पिय वर्नुसमध कम नवि
हाँ२ व तुन वङ नक्रुवनयङनसन व्यथ प्रकासिता ॥ ध्रु ॥ नेमाभि श्मि

श्री श्री महामंजुश्री सकलनगरनना मसुनगनः कुमनिङ हनस्नानमा
लुपङः सर्वस्न स्नान निधिसागना ॥ ध्रु ॥ प्रथम कनहयक्षतिर्थ वङ
यंन्हा: मुर्ज्ञा निगन विनाशिफङ २ द्वितिय जकुसधनर तियस्नान
स्कन्धः ३ चतुर्थ वामरवरशिखुनक्षाना ॥ ध्रु ॥ उरुयमुगवालगुवनखभवा
पुः वतुर्थवाम धूपवृस्काका ॥ यननकुन जिह्वप्रकाशिता: कितिसमव
कुविलना: ध्रु ॥ निश्चिवृषि हायिनिमिलि स्वनित: सर्वस्न स्नान निधि
ठवपङ ना२ कुहुसनन सनन्ह मागन ॥ यनमानङा वङ्क म्मनि: ध्रु

ॐ नमो बुद्धाय ॥ श्रीनामसं गिन भेरवानि ॥ तावन र्जीम्ह था ॥ मित्रबन्धु
निष्यामि ३ वामित्रजन मनिर्धो ॥ पुनाप वसनामसंद्रव ॥ श्रीगी न मित्रसं
धया डइ ॥ त्र या खुल बुपनि सकन मित्रसे वं धयायख ॥ मित्र वं धयाय ॥ धा
यडा न ॥ जुसा ३ वया जुघास ॥ जुसाज ह्म याडा या मस ॥ जुसाग्र न्याजु
घस ॥ जुव खमा ग ॥ नड ॥ पुनम ध्वनया जुघास ॥ मित्र व धयम डारव ॥
व स्वना र्थ स्य य ग्रास्यपिपि विस्वास स्याडनं ॥ जन न ह्म मिड संना मित्र
सि गाकु न इ यं ॥ गुन षमित्र याध्व कसं पज्ञ काथ ॥ मला २ स्यी ग्रासंड

काथं ॥ ह्म याथ ॥ ग्रासान पमान २ मित्र धाय गथि ड ॥ स मत्रपि ग्रिविस्वासया
स्या ना ॥ मामव ड्या कम बाक्व विस्वास धागरं ग्य ॥ यन न ह्म धायमित्र
कुन नम्ह हन छग्व न श ॥ व्यपि ग्रिया डानं ॥ यकस विनरूप मान ख ॥
नस नाप बुं ग्रस्यानासैं स्यना सफ स्यगवा ॥ मित्र डारि कु ग्रं सयासैं स्या लावि
स्वासपात्र क ॥ पुन वा नछपनि ॥ कान वरव थनि छ्यापि निस्यै ॥ मित्र मा कं ॥
कव ग्र या डह्वा डाप्याय मं गव ॥ गह्मन धान स्या थाकु ॥ गवधड स्य ना पव न
मरवु ॥ साजान समुड न स्यानाम खु ॥ मित्र याकं डासायाडायविजो ॥ वाप
स्यानी ॥ कु इ यान कु वु य था कं ॥ थु गन मित्र याक डाडा याय म गंव ॥ थ
गं नम धनहा थ मान ख ॥ छ्रु हम षु ॥ [illegible] मित्र कं या ग